

## प्रेस नोट दिनांक-22.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा राहगीर से लूट करने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध असलहों सहित गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा0 बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना बलरई पुलिस व एसओजी इटावा की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए राहगीर से लूट करने वाले 03 अभियुक्तों को अवैध असलहों सहित गिरफ्तार किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.05.2021 को थाना बलरई पुलिस को थाना क्षेत्रांतर्गत नगला रामसुन्दर गेट के पास मोटरसाइकिल सवार 03 बदमाशों द्वारा शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे दंपत्ति के साथ लूट करने की सूचना प्राप्त हुई जिस सम्बंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बलरई पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी इसी क्रम में दिनांक 21.05.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 12.05.2021 को थाना क्षेत्रांतर्गत हुई उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त गण सफेद अपाचे मोटरसाइकिल से आगरा की तरफ से यमुना नदी पुल पार कर इटावा की ओर आ रहे हैं, सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एसओजी इटावा व थाना बलरई पुलिस टीम द्वारा ग्राम कीरतपुर स्थित ठेका देशी शराब के पास पहुंचर चेकिंग की जाने लगी। पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा करने पर चालक द्वारा मोटरसाइकिल पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने पर पीछे बैठे 03 व्यक्ति गिर गये जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया एवं मोटरसाइकिल चालक रात्रि का फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सहित मौके से भागने में सफल रहा।

गिरफ्तार अभियुक्तों की जामा तलाशी लेने पर अभियुक्तों के पास से 02 अदद तमंचा(315 बोर), 05 कारतूस (315 बोर), 01 चाकू, 01 लूटा हुआ मोबाईल व 01 चाबी बरामद की गयी। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा दिनांक 12.05.2021 को नगला रामसुन्दर गेट के पास लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. भोला पुत्र महेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम जौमतपुरा थाना खेड़ा राठौर, आगरा।
2. विनय यादव पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी ग्राम लहारऊ थाना नगला खंगर, फिरोजाबाद।
3. सोनवीर उर्फ लालू पुत्र ओमकार सिंह यादव निवासी उरावर सालाहार थाना नगला खंगर, फिरोजाबाद।

**बरामदगी:-**

- 1.02 अदद तमंचा(315 बोर)
- 2.05 कारतूस (315 बोर)
- 3.01 चाकू
- 4.01 लूटा हुआ मोबाईल
- 5.01 चाबी

**पंजीकृत अभियोग:-**

- 1.मु0अ0सं0 40/21 धारा 392,411 भादवि थाना बलरई इटावा।
- 2.मु0अ0सं0 43/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलरई इटावा।
- 3.मु0अ0सं0 44/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलरई इटावा।
- 4.मु0अ0सं0 45/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलरई इटावा।

**पुलिस टीम:-**

**प्रथम टीम-** श्री सतीश चंद्र यादव प्रभारी एसओजी इटावा मय टीम,श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल इटावा मय टीम।

**द्वितीय टीम-** श्री राजकुमार शर्मा थानाध्यक्ष बलरई मय टीम।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा।